



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1042 राँची, गुरुवार,

22 नवम्बर, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

20 नवम्बर, 2018

संख्या-03नि0/न0-84/2018रा0नि0आ0-1552..यतः झारखण्ड राज्य के राज्यपाल, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 539 के अधीन निर्गत की गई, नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 5513 राँची, दिनांक 19.11.2018 द्वारा मिहिजामनगर परिशद (वर्ग-ख) (वार्ड संख्या- 03/वार्ड पार्शद-अनारक्षित/महिला), आदित्यपुर नगर निगम (वार्ड संख्या-28/वार्ड पार्शद-अनारक्षित/अन्य), कपाली नगर परिशद (वर्ग-ख) (कपाली नगर परिशद (वर्ग-ख) का सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र/उपाध्यक्ष-अनारक्षित/अन्य), कपालीनगरपरिशद (वर्ग-ख) (वार्ड संख्या-10/वार्ड पार्शद-पिछड़ा वर्ग/अन्य), कपालीनगरपरिशद (वर्ग-ख) (वार्ड संख्या-15/वार्ड पार्शद-पिछड़ा वर्ग/महिला) तथा सरायकेला नगर पंचायत (वार्ड संख्या-10/वार्ड पार्शद-अनुसूचित जनजाति/महिला) के निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि नगरपालिका उप निर्वाचन, 2018 के संदर्भ में वे उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदों के उपबंधों के

अनुसार एक चरण में दिनांक 19.12.2018 को दो जिलों यथा जामताड़ा एवं सरायकेला-खरसावाँ में मतदान कर पदधारी निर्वाचित कर दें;

अतः झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 35 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, एतद् द्वारा एक चरण में संलग्न अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उक्त उप निर्वाचन के सम्बंध में निम्न रूपेण निर्वाचन प्रक्रम को नियत करता है:-

| | | |
|-----|--|-----------------------|
| (क) | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा प्रपत्र 5 में उप निर्वाचन की सूचना प्रकाशन की तारीख | 22.11.2018 (गुरुवार) |
| (ख) | नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) | 30.11.2018 (शुक्रवार) |
| (ग) | नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) | 01.12.2018 (शनिवार) |
| (घ) | अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) | 03.12.2018 (सोमवार) |
| (ङ) | निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तारीख (पूर्वाह्न 11:00 बजे से कार्यपूर्णहोने तक) | 04.12.2018 (मंगलवार) |
| (च) | मतदान की तारीख (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक) | 19.12.2018 (बुधवार) |
| (छ) | मतगणना की तारीख (प्रातः 8:00 बजे से) | 22.12.2018 (शनिवार) |
| (ज) | वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न करा लिया जाएगा | 23.12.2018 (रविवार) |

और कण्डिका (च) में अंकित किए गए समय को ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो उप निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा;

और उपर्युक्त अंकित निर्वाचन प्रक्रमों में प्रक्रम (क) से (ङ.) तक की प्रक्रिया के लिए सम्बंधित निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष को स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट करता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ज्ञानेन्द्र कुमार,
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड

अनुसूची-1

सारणी

| पद का नाम | नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या | | | मतदान का समय |
|--------------|---|-----------------|-------|---|
| 1 | 2 | | | 3 |
| वार्ड पार्षद | जामताड़ा / मिहिजाम नगर परिषद (वर्ग-ख) / वार्ड संख्या - 03 | अनारक्षित | महिला | प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक |
| वार्ड पार्षद | सरायकेला-खरसावाँ / आदित्यपुर नगर निगम / वार्ड संख्या - 28 | अनारक्षित | अन्य | प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक |
| उपाध्यक्ष | सरायकेला-खरसावाँ / कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख) / सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र | अनारक्षित | अन्य | प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक |
| वार्ड पार्षद | सरायकेला-खरसावाँ / कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख) / वार्ड संख्या-10 | पिछड़ा वर्ग | अन्य | प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक |
| वार्ड पार्षद | सरायकेला-खरसावाँ / कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख) / वार्ड संख्या-15 | पिछड़ा वर्ग | महिला | प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक |
| वार्ड पार्षद | सरायकेला-खरसावाँ / सरायकेला नगर पंचायत / वार्ड संख्या-10 | अनुसूचित जनजाति | महिला | प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक |

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ज्ञानेन्द्र कुमार,
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
झारखण्ड, राँची।
